



CCL

Fuelling Sustainable Growth

CENTRAL COALFIELDS LTD.

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम / कोल इंडिया लि. की एक अनुषंगी कंपनी)
पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, राँची 834 001 (झारखण्ड)

CIN : U10200JH1956GOI000581

अधिकारी स्थापना विभाग / Executive Establishment Deptt

फोन : (0651) 2360695 / Extn. 5144, ईमेल : gmee.ccl@coalindia.in

वेबसाइट : www.centralcoalfields.in

सं. सीसीएल/मप्र(का-ईई)/सर्वे/विरमित/2024/E-1579850/6443 दिनांक : 26/08/2024

कार्यालय आदेश/ OFFICE ORDER

सीआईएल के कार्यालय आदेश सं. CIL/C-5A(ii)/52036/B-577 dated 26-07-2024 के तहत श्री Munna Kumar (95000316), अधिकारी (सर्वे)/ E-1 ग्रेड, संचालन विभाग, मुख्यालय को अपनी मौजूदा क्षमता/ ग्रेड में एमसीएल स्थानांतरित किए गए हैं, उनको दिनांक 31/08/2024 को सीसीएल से विरमित किया जाता है।

Pursuant to CIL's Office Order no. CIL/C-5A(ii)/52036/B-577 dated 26-07-2024, vide which Sri Munna Kumar (95000316), Officer (Survey)/ E1 Grade, Oprn. Deptt. HQ who has been transferred to MCL in his existing capacity/ grade, is hereby released from CCL w.e.f 31/08/2024.

विरमित होने पर, श्री Munna Kumar आगे के कार्यभार के लिए एमसीएल के सीएमडी को रिपोर्ट करेंगे।

On being released, Sri Munna Kumar will report for duty to the CMD, MCL for further assignment.

स्थानांतरण को "अनुरोध स्थानांतरण" के रूप में माना जाएगा और इसे तदनुसार विनियमित किया जाएगा।

The transfer will be treated as "Request Transfer" and the same shall be regulated accordingly.

नया कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिनों के भीतर प्राइड भरना संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

It will be the personal responsibility of the executive concerned to fill up the PRIDE within 15 days of taking up new assignment.

यह सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

This issues with the approval of Competent Authority.

(विल्फ्रेड माणिक लकड़ा)

उप. प्रबंधक (कार्मिक - अधि. स्था.)

वितरण ई ऑफिस द्वारा :

1. सीएमडी, एमसीएल।
2. निदेशक (तकनीकी/ संचालन)/ निदेशक (वित्त)/ निदेशक (कार्मिक)/ निदेशक (परियोजना एवं योजना), सीसीएल, रांची।
3. सीएमडी के तकनीकी सचिव, सीसीएल, रांची।
4. महाप्रबंधक/ विभागाध्यक्ष (अधि. स्था.), एमसीएल - संबंधिक अधिकारी का जॉइनिंग रिपोर्ट भेजने कि कृपा करें।
5. महाप्रबंधक (संचलन)/ सतर्कता /अधि. स्था./ पी एंड आईआर/ प्रशासन/ सामाजिक सुरक्षा/ एचआरडी/ प्रणाली/ एनआईएमसी, सीसीएल, रांची।
6. विभागाध्यक्ष (कार्मिक - अधि. स्था.), सीआईएल, कोलकाता।
8. महाप्रबंधक (संचलन), सीसीएल - विरमित आदेश भेजने कि कृपा करें।
10. मुख्य प्रबंधक/ व.प्र/ उ.प्र (वित्त - ईपीआर)/ (स्था.), सीसीएल, रांची - LPC कि कॉपी इस विभाग को भी भेजने कि कृपा करें एवं पदस्थापना स्थल से विरमित होने के पश्चात, सर्विस शीट की आवश्यक पत्रो कि कॉपी रखकर, सर्विस शीट दूसरे सबसिडियरी भेजने की कृपा करें ।
11. प्रबंधक (कार्मिक), सीएमडी सचिवालय, सीसीएल, रांची।
12. उप. प्रबंधक (वित्त - सीएमपीएफ), सीसीएल, रांची।
13. नोडल अधिकारी (PRIDE), HQ - PRIDE के निर्माण हेतु।
14. सहायक प्रबंधक (कार्मिक - अधि. स्था./ डीसी), सीसीएल, रांची - आवश्यक अद्यतनीकरण हेतु।
15. सहायक. प्रबंधक (कार्मिक - अधि. स्था./सीआर), सीसीएल, रांची - कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
16. संबंधित अधिकारी।
17. व्यक्तिगत फ़ाइल।